

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 — आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-131/2019/18.-छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत, छुरिया, जिला-राजनांदगांव के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. छुरिया, नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	संत रविदास वार्ड
2	कुलदीप सिंह वार्ड
3	राजीव गांधी वार्ड
4	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
5	रानीलक्ष्मी बाई वार्ड
6	अहमद भाई वार्ड
7	गुरु गोविन्द सिंह वार्ड
8	रानी दुर्गावती वार्ड
9	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
10	इंदिरागांधी वार्ड
11	डॉ० भीमराव अम्बेडकर वार्ड
12	शहीद चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
13	शहीद भगत सिंह वार्ड
14	पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
15	जय बूढ़ादेव वार्ड

छुरिया नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड नं. 01—संत रविदास वार्ड

उत्तर :- खसरा नं. 2/1 से खसरा नंबर 106 होते हुए सिन्हा समाज भवन तक ।
 पूर्व :- सिन्हा समाज भवन से शकील मेमन घर तक ।
 दक्षिण :- शकील मेमन घर से खसरा नंबर 48 तक ।
 पश्चिम :- खसरा नंबर 48 से खसरा नंबर 44 होते हुये खसरा नंबर 2/1 तक ।

वार्ड नं. 02 — कुलदीप सिंह वार्ड

उत्तर :- जहरून निशा के घर से चिन्ता राम सिन्हा घर तक ।
 पूर्व :- चिन्ता राम सिन्हा घर से बनवासा घर होते हुये भादू निषाद घर तक ।
 दक्षिण :- भादू निषाद घर से गौरी निर्मलकर घर होते हुये सतीश निर्मलकर घर तक ।
 पश्चिम :- सतीश निर्मलकर घर से गोपाल गुप्ता के घर होते हुये जहरून निशा घर तक ।

वार्ड नं.03 — राजीव गांधी वार्ड

उत्तर :- खसरा नंबर 296 से खसरा नंबर 314 होते हुये खसरा नंबर 353 तक ।
 पूर्व :- खसरा नंबर 353 से खसरा नंबर 354, 355 होते हुये खसरा नंबर 356 तक ।
 दक्षिण :- खसरा नंबर 356 से किशोर के घर होते हुये बर्वे के घर तक ।
 पश्चिम :- बर्वे घर से मेहतरीन घर होते हुये खसरा नंबर 296 तक ।

वार्ड नं.04 — पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

उत्तर :- शेखर कंचनकर घर से पंप हाउस होते हुये रहमान बेग घर तक ।
 पूर्व :- रहमान बेग के घर से जरीफ के घर होते हुये शंकर नाई के घर तक ।
 दक्षिण :- शंकर नाई के घर से जय कुमार कंडरा घर तक ।
 पश्चिम :- जय कुमार कंडरा घर से तुलसी कुंभकार घर होते हुये शेखर कंचनकर के घर तक ।

वार्ड नं.05 — रानीलक्ष्मी बाई वार्ड

उत्तर :- सुनील लारोकर के घर से कनक साहू घर होते हुये रमेश टाटिया घर तक ।
 पूर्व :- रमेश टाटिया घर से तालाब होते हुये हेमराज कंडरा घर तक ।
 दक्षिण :- हेमराज कंडरा घर से खसरा नंबर 452 होते हुये हिंसाराम साहू के घर तक ।
 पश्चिम :- हिंसाराम साहू के घर से नाथू रजक घर होते हुये सुनील लारोकर के घर तक ।

वार्ड नं.06 — अहमद भाई वार्ड

उत्तर :- खसरा नंबर 45 से झाड़ू सिन्हा के घर होते हुये अगनू महार के घर तक ।
 पूर्व :- अगनू महार के घर से रोहित सिन्हा के घर होते हुये राजू कुंभकार दुकान तक ।
 दक्षिण :- राजू कुंभकार दुकान से खसरा नंबर 46 तक ।
 पश्चिम :- खसरा नंबर 46 से खसरा नंबर 45 तक ।

वार्ड नं.07 — गुरु गोविंद सिंह वार्ड

उत्तर :- नर्स क्वार्टर से सलीम गोदाम होते हुये मोफिज घर तक ।
 पूर्व :- मोफिज घर से सिद्धीक कुरैशी घर होते हुये चितानंद यदु घर तक ।
 दक्षिण :- चितानंद यदु के घर से प्रभू हॉटल होते हुये रेस्ट हाउस तक ।
 पश्चिम :- रेस्ट हाउस से नर्स क्वार्टर तक ।

वार्ड नं.08 – रानी दुर्गावती वार्ड

उत्तर :- हेमलाल सिन्हा के घर से विजय अग्रवाल घर होते हुये पेट्रोल पंप तक।
 पूर्व :- पेट्रोल पंप से खसरा नंबर 593 तक।
 दक्षिण :- खसरा नंबर 593 से खसरा नंबर 578 तक।
 पश्चिम :- खसरा नंबर 578 से हेमलाल सिन्हा घर तक।

वार्ड नं.09 – सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

उत्तर :- पंकज मेडिकल से तुकाराम घर होते हुये सतीष घर तक।
 पूर्व :- सतीष घर से किसुन पटेल घर होते हुये बैजनाथ घर तक।
 दक्षिण :- बैजनाथ घर से नया तालाब खसरा नंबर 483 तक।
 पश्चिम :- नया तालाब खसरा नंबर 483 से पंकज मेडिकल तक।

वार्ड नं.10 – इंदिरागांधी वार्ड

उत्तर :- शमीम दुकान से साहू किराना तक।
 पूर्व :- साहू किराना से ओम प्रकाश के घर तक।
 दक्षिण :- ओम प्रकाश घर से फूलचंद घर होते हुये श्याम साहू घर तक।
 पश्चिम :- श्याम साहू के घर से शमीम दुकान तक।

वार्ड नं.11—डॉ० भीमराव अम्बेडकर वार्ड

उत्तर :- चिन्ता पान दुकान से तौकीर के दुकान तक।
 पूर्व :- तौकीर के दुकान से रामजी यादव घर तक।
 दक्षिण :- रामजी यादव घर से तहसील कार्यालय भवन तक।
 पश्चिम :- तहसील कार्यालय भवन से काम्पलेक्स होते हुये चिन्ता पान दुकान तक।

वार्ड नं.12—शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड

उत्तर :- खसरा नंबर 46 से भूरू हॉटल होते हुये बिसराम घर तक।
 पूर्व :- बिसराम घर से लालाराम घर होते हुये खसरा नंबर 569 तक।
 दक्षिण :- खसरा नंबर 569 से खसरा नंबर 478 होते हुये खसरा नंबर 46 तक।
 पश्चिम :- उदयराम सिन्हा के घर के पीछे खसरा नंबर 46 तक का संपूर्ण क्षेत्र।

वार्ड नं.13 शहीद भगत सिंह वार्ड

उत्तर :- सुग्रीव घर से हृदय के घर होते हुये शव परीक्षण गृह तक।
 पूर्व :- शव परीक्षण गृह से रैनू गोड़ के घर होते हुये रामाधार यादव के घर तक।
 दक्षिण :- रामाधार यादव घर से बिसौहा घर होते हुये खसरा नंबर 569 तक।
 पश्चिम :- खसरा नंबर 569 से खसरा नंबर 567 होते हुये सुग्रीव घर तक।

वार्ड नं.14—पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

उत्तर :- खसरा नंबर 41 से भरत कुंजाम घर होते हुये खसरा नंबर 329 तक।
 पूर्व :- खसरा नंबर 329 से खसरा नंबर 331 तक।
 दक्षिण :- खसरा नंबर 331 से जयलाल साहू घर होते हुये खसरा नंबर 54 तक।
 पश्चिम :- खसरा नंबर 54 से खसरा नंबर 41 तक।

वार्ड नं.15— जय बूढ़ादेव वार्ड

उत्तर :- खसरा नंबर 02 से खसरा नंबर 184 होते हुये खसरा नंबर 201 तक।
 पूर्व :- खसरा नंबर 201 से खसरा नंबर 237 तक।
 दक्षिण :- खसरा नंबर 237 से श्याम गोड़ घर होते हुये खसरा नंबर 5/1 तक।
 पश्चिम :- खसरा नंबर 5/1 से खसरा नंबर 02 तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर.एक्का, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-131/2019/18.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-131/2019/18, दिनांक 12-07-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर.एक्का, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 12th July 2019

NOTIFICATION

No. F 1-131/2019/18.- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat, Churiya Distt. Rajnandgaon as per shedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat, Churiya into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Sant Ravidas Ward
2	Kuldeep Singh Ward
3	Rajeev Gandhi Ward
4	Pt. Dindayal Upadhyay Ward
5	Rani Laxmi Bai Ward
6	Ahmed Bhai Ward
7	Guru Govind Singh Ward
8	Rani Durgawati Ward
9	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
10	Indira Gandhi Ward
11	Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward
12	Shahid Chandrashekhar Azad Ward
13	Shahid Bhagat Singh Ward
14	Pt. Shyama Prasad Mukharjee Ward
15	Jai Budhadev Ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Churiya

Ward No. -1 Sant Ravidas Ward

North : From Khasra No. 2/1 to Sinha Samaj Bhawan via Khasra no 106.
 East: From Sinha Samaj Bhawan to Shakeel Memon's House.
 South : From Shakeel Memon's House to, Khasra no 48.
 West : From Khasra No 48 to Khasra no 2/1, via Khasra no 44.

Ward No. – 02 Kuldeep Singh Ward

North : From Jehrun Nisha House to Chinta Ram Sinha's House.
 East: From Chinta Ram Sinha's House to Bhadu Nishad's House via Banwasa's House.
 South : From Bhadu Nishad's House to Satish Nirmalkar's House via Gouri Nirmalkar's House.
 West : From Satish Nirmalkar's House to Jehrun Nisha House via Gopal Gupta's House.

Ward No. – 03 Rajeev Gandhi Ward

North : From Khasra No 296 to Khasra No 353, via Khasra no 314.
 East: From Khasra No 353 to Khasra No.356 via Khasra no 354,355.
 South : From Khasra No.356 to Barve's House via Kishor's House.
 West : From Barve's house to Khasra No 296 via Mehtarin's House.

Ward No. – 04 Pt. Dindayal Upadhyay Ward

North : From Shekhar Kanchankar's House to Rahman Beg's House via Pump House.
 East: From Rahman Beg's house to Shankar Naai's house via Jarif's House
 South : From Shankar Naai's House to Jai Kumar Kandra's House.
 West : From Jai Kumar Kandra's house to Shekhar Kanchankar's house via Tulsi Kumbhkar's House.

Ward No. – 05 Rani Laxmi Bai Ward

North : From Sunil Larokar's house to Ramesh Tatiya's house via Kanak Sahu's House.
 East: From Ramesh Tatiya's House to Hemraj Kandra's House via Pond.
 South : From Hemraj Kandra's House to Hinsaram's House via Khasra no 452.
 West : From Hinsaram Sahu's House to Sunil Larokar's house via Nathu Rajak's House.

Ward No. – 06 Ahmed Bhai Ward

North : From Khasra no 45 to Agnu Mahar's house via House of Jhaadu Sinha.
 East: From Agnu Mahar's house to Raju Kumbhkar's Shop via Rohit Sinha's House.
 South : From Raju Kumbhkar's Shop to Khasra no 46.
 West : From Khasra no 46 to Khasra No 45.

Ward No. – 07 Guru Govind Singh Ward

North : From Nurse Quarter to Mofiz's House via Saleem Godown.
 East: From Mofiz's House to Chitanand Yadu's House via Siddique Qureshi's House.
 South : From Chitanand Yadu's House to Rest House via Prabhu Hotel.
 West : From Rest House to Nurse Quarter.

Ward No. – 08 Rani Durgawati Ward

North : From Hemlal Sinha's House to Petrol Pump via Vijay Agrawal's House.
 East: From Petrol Pump to Khasra No 593.
 South : From Khasra no 593 to Khasra no 578.
 West : From Khasra no 578 to Hemlal Sinha's House.

Ward No. – 09 Sardar Vallabh Bhai Patel Ward

North : From Pankaj Medical to Satish's House via Tukaram's House.
 East: From Satish's House to Baijnath's House via Kishnu Patel's House.
 South : From Baijnath's House to New Pond, Khasra no 483.
 West : From New Pond, Khasra no 483 to Pankaj Medical.

Ward No. – 10 Indira Gandhi Ward

North : From Shamim Shop to Sahu Kirana.
 East: From Sahu Kirana to Om Prakash's House.
 South : From Om Prakash's House to Shyam Sahu's House via Fulchand House.
 West : From Shyam Sahu's house to Shamim Shop.

Ward No. – 11 Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward

North : From Chinta Pan Shop to Toukir's Shop.
 East: From Toukir's Shop to Ramji Yadav's House.
 South : From Ramji Yadav's House to Tehsil Office Building.
 West : From Tehsil Office Building to Chinta Pan Shop via Complex.

Ward No. – 12 Shahid Chandrashekhar Azad Ward

North : From Khasra no 46 to Bisram's House via Bharu Hotel.
 East: From Bisram's House to Khasra no 569 via Lalaram's House.
 South : From Khasra no 569 to Khasra no 46 via Khasra no 478.
 West : Complete area covered in khasara no. 46 on back side of udairam sinha's house.

Ward No. – 13 Shahid Bhagat Singh Ward

North : From Sugriv House to Post Mortem Building via Hirdey's House.
 East: From Post Mortem Building to Ramadhar Yadav's House via Reenu Gond's House.
 South : From Ramadhar's house to Khasra no 569, via Bisauha's House.
 West : From Khasra no 569 to Sugriv's House via Khasra no 567.

Ward No. – 14 Pt. Shyama Prasad Mukharjee Ward

North : From Khasra no 41 to Khasra no 329 via Bhart Kumjam's House.
 East: From Khasra no 329 to Khasra no 331.
 South : From Khasra no 331 to Khasra no 54 via Jailal Sahu's House.
 West : From Khasra no 54 to Khasra no 41.

Ward No. – 15 Jai Budhadev Ward

North : From Khasra No. 02 to Khasra no 201 via Khasra no 184.

East: From Khasra no. 201 to Khasra no 237.

South : From Khasra no 237 to Khasra no 5/1 via Shyam Gond's House.

West : From Khasra no 5/1 to Khasra no 02

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.